

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1983/कार्तिक 27, 1905
No. 515] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 1983/KARTIKA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1983

का० मा० 823(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 1: के उपपैरा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग को, जिसकी प्रकृति और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, अग्रणी कीमत के रूप में, जिसके अन्तर्गत उत्पादक और स्थानीय कर, यदि कोई हो, नहीं हैं, नियत करती है।

सारणी				
क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रचलता	पैक अ.कार	अग्रणी कीमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग III सूत्रयोग :				
1.	डाइक्लोजेप हाइड्रोक्लोराइड गोमियां	50 मि० ग्रा०/गोलियां	10 के डिस्क	11.66
2.	" "	50 मि० ग्रा०/गोलियां	30 के बोतल	57.88
3.	पोलीविटामिन गोमियां	प्रत्येक गोली में निम्न-लिखित अंतर्विष्ट हैं :— विटा० ए 5000 यूनिट विटा० डी 400 यूनिट विटा० बी ₁ 2 मि० ग्रा० विटा० बी ₂ 2 मि० ग्रा० विटा० बी ₆ 0.5 मि० ग्रा० केल० पेंटोथिमेट यू०एस० पी० 1 मि० ग्रा० नियासिनामाइड आई० पी० 25 मि० ग्रा० विटा० सी० आई० पी० 25 मि० ग्रा० फोलिक एसिड आई० पी० 0.3 मि० ग्रा०	1000 के टिन/ बोतल	59.17

[सं० 9 (39)/83-डी-II]

ई० एम० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1983

S.O. 823 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of subparagraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (3) of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said table

with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof :—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category III formulations :				
1.	Dilazep Hydrochloride Tablets	50 mg/tablet	10's strip	11.66
2.	Dilazep Hydrochloride Tablets	50 mg/tablet	50's bottle	57.88
3.	Poly Vitamins Tablets N.F.I.	Each tablet contains:	1000's Tin/ bottle	59.17
		Vit. A 5000 units		
		Vit. D 400 units		
		Vit. B ₁ 2 mg		
		Vit. B ₂ 2 mg		
		Vit. B ₆ 0.5 mg		
		Cal. Pantothenate		
		USP 1 mg,		
		Niacinamide IP 25 mg,		
		Vit. C IP 25 mg		
		Folic Acid IP 0.3 mg		

[No. 9(39)/83-D-II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

